

संपादकीय

ट्रंप को जीवनदान भगवान की देन

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला निश्चित रूप से चिंता का सबब है। 40 दिन पूर्व राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले ट्रंप पर एक चुनावी सभा में जानलेवा हमले से हर कोई हलकान है।

वाकई ट्रंप को जो जीवनदान मिला है, वह भगवान की देन ही कही जाएगी। खुद ट्रंप ऐसा मानते हैं। दरअसल, अमेरिका में बंदूक संस्कृति की वजह से खून-खराबे का ऐसा माहौल बना है। कहते हैं कि वहां लोगों से ज्यादा बंदूकें हैं।

हालाकि इस हमले को सियासी चश्मे से भी देखा और परखा जा रहा है। कई जानकार तो यहां तक दावा करने लगे हैं कि इस हमले के बाद ट्रंप की जीत की राह काफी आसान हो गई है। बहरहाल, ये सभी कयासबाजी मुकम्मल जांच के बाद ही साफ हो सकती है। इसके पीछे किसकी साजिश है। प्रथम दृष्टया जो कुछ सार्वजनिक हुआ है, उसमें हमलावर की ट्रंप के प्रति नासंदेगी की बात है।

चुनाव के ठीक पहले इस तरह के हमले को लेकर कई किन्तु-परंतु होते हैं। यह लगभग हर देश में होता है। अमेरिका में भी इसे लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं, मगर एक बात तो हर किसी को अपने जेहन में रखनी होगी कि हिंसा और खून बहाना किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए श्राप से कम नहीं। इस नाते किसी को भी इस मसले पर अपनी त्वरित प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए।

विश्व के सबसे ताकतवर मुक्त के मुखिया के पद पर रहे शख्स को जान से मारने की नीयत से हमला करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। राष्ट्रपति जो बाइडन को तुरंत पूरे प्रकरण की ठोस जांच करानी चाहिए और इस बात का भरोसा विपक्षी दलों समेत देश की जनता को दिलाना चाहिए कि ऐसे कृत्य नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इस बात की भी जांच पूरी पारदर्शिता से होनी चाहिए कि उनकी सुरक्षा में तैनात सिक्रेट सर्विस के एजेंट से कहा चूक हुई।

निश्चित तौर पर ट्रंप पर हमला सामान्य घटना नहीं है। इससे अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव की पूरी दिशा ही बदल सकती है। ट्रंप फिलहाल बाइडन से प्रचार में बढ़त बनाए हुए हैं। बाइडन की उम्र और उम्र संबंधी दुरियों की वजह से रिपब्लिकन पार्टी फिलवक्त कमजोर दिखती है।

अगर ट्रंप पर हमले की घटना आम अमेरिकियों के दिलो-दिमाग पर गहरे तक असर डालेगी तो वहां सत्ता में बदलाव हो सकता है। देखना है, रिपब्लिकन पार्टी पूरी घटना से खुद को कैसे उबार पाती है? आने वाला वक्त वाकई दिलचस्प होने वाला है।

आम आदमी पर महंगाई की मार जारी, बढ़ रही है खाने-पीने की चीजों की कीमतें

नई दिल्ली

एक अप्रैल 2024 भारतीय वित्त वर्ष का पहला दिन। अरहर की दाल का औसत रेट 149.23 रुपए था। चीनी 44.44 रुपए की एक किलो थी। सरसों का एक लीटर तेल 135.67 रुपए का था, आलू 24.76 रुपए किलो थे, प्याज 32.38 रुपए और टमाटर 32.97 रुपए किलो थे। ये जो दाम आपने सुने हैं वे औसत दाम थे। ये आंकड़े उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए हैं। अब इसी वेबसाइट पर 15 जुलाई के औसत दामों पर नजर डालते हैं। अरहर की दाल 168.75 पर पहुंच गई है, चीनी 45.03 पर, सरसों का तेल 140.82 पर, आलू 37.14 रुपए किलो, प्याज 44.67 रुपए किलो और टमाटर 68.52 रुपए किलो पर पहुंच गए हैं। मुझे

उम्मीद है कि ये आंकड़े देखने के बाद आपको महंगाई दिख भी रही होगी और महसूस भी हो रही होगी और ये तो एक बानगी मात्र है। इसी वेबसाइट पर और भी कई चीजों के दाम दिए गए हैं। अब इसके आगे की बात जानिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भी कुछ आंकड़े जारी किए हैं। इनके मुताबिक जून में थोक महंगाई दर बढ़ गई है। 3.36 फीसदी पर पहुंच गई है। थोक महंगाई को इक्वकवूड भी कहते हैं, इक्वकवूड माने होलसेल प्राइस इंडेक्स। पिछले चार महीनों से इक्वकवूड में लगातार इजाफा हो रहा है। मार्च में ये 0.53 फसदी थी, अप्रैल में ये 1.26 फीसदी थी, मई में 2.61 फीसदी और अब जून में 3.36 फीसदी। अब सवाल ये कि थोक महंगाई क्यों बढ़ रही है? और जवाब ये कि खाने-पीने की चीजें

महंगी हो गई हैं। सरकारी आंकड़े तस्दीक करते हैं कि आलू से लेकर प्याज तक और टमाटर से लेकर तमाम सब्जियां महंगी हो गई हैं। तमाम दालें महंगी हो गई हैं। थोक महंगाई के बाद बात करते हैं रिटेल महंगाई की। 12 जुलाई को रिटेल महंगाई के आंकड़े आए थे। जून के महीने में रिटेल महंगाई भी बढ़ गई। 5.08 प्रतिशत पर पहुंच गई। अप्रैल में ये आंकड़ा 4.85% का था। और मई में रिटेल महंगाई 4.75% पर थी। रिपोर्ट बताती है कि खाने-पीने की चीजें महंगी होने की वजह से रिटेल महंगाई बढ़ गई है। खाद्य महंगाई दर 8.69 से बढ़कर 9.36% पर पहुंच गई है। यही नहीं शहरी महंगाई के साथ-साथ ग्रामीण महंगाई भी बढ़ती जा रही है। रिटेल महंगाई दर या फिर थोक महंगाई दोनों में एक चीज

कॉमन है। दोनों रिपोर्ट एक बात पर मुहर लगाती हैं। वो ये कि खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। खाने-पीने की चीजें महंगी हो रही हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि कोई चीज महंगी क्यों होती है और सस्ती कब हो जाती है। दरअसल महंगाई का पूरा गणित काम करता है मांग और सप्लाई के फॉर्मूले पर। अगर किसी चीज की मांग बहुत अधिक है और सप्लाई कम है तो उस चीज के दाम बढ़ जाएंगे। वहीं अगर किसी चीज की सप्लाई अधिक है और मांग बहुत ज्यादा नहीं है तो ऐसे में उस चीज के दाम कम हो जाएंगे। यानी सब्जियों और दालों की मांग तो ज्यादा है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं है। और यही कारण है कि इन चीजों के दामों में उछाल आ गया है।

सिप्ला को 773 करोड़ रुपए का आयकर नोटिस

नई दिल्ली

दवा कंपनी सिप्ला को आयकर विभाग से 773.44 करोड़ का नोटिस मिला है। यह मांग आकलन वर्ष 2015-16 से 2022-23 के लिए है। कंपनी ने मंगलवार को शेरार बाजार को बताया, आयकर प्राधिकरण ने 12 जुलाई, 2024 के आदेश में कर निर्धारण और पुनर्मूल्यांकन के तहत विभिन्न खर्चों



की अस्वीकृतियों के कारण अतिरिक्त कर मांग की है। 773.44 करोड़ रुपये की मांग में उक्त किसी भी आकलन वर्ष का कोई रिफंड शामिल नहीं है।

टैरिफ बढ़ाने से एक दशक के उच्च स्तर पर पहुंचेगी प्रति ग्राहक कमाई

पूजी रिटर्न सुधारने में मदद

नई दिल्ली

मोबाइल और डाटा टैरिफ महंगा करने से दूरसंचार कंपनियों की प्रति ग्राहक कमाई (एआरपीयू) बढ़कर एक दशक के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा, 2025-26 तक हर मोबाइल ग्राहक से ये कंपनियां 225-230 रुपये तक कमाई करेगी, जो बीते वित्त वर्ष के 180 रुपये से 25 फीसदी तक ज्यादा है। क्रिसिल ने मंगलवार को जारी



रिपोर्ट में कहा, उच्च लाभप्रदता और कम पूंजी खर्च के कारण दूरसंचार कंपनियों की क्रेडिट स्थिति में भी सुधार होगा। 5जी सेवाओं की शुरुआत के बाद बढ़े हुए डाटा उपयोग से एआरपीयू को भी मदद मिलेगी। वोडाफोन, एयरटेल और जियो ने हाल में टैरिफ 25 फीसदी

तक बढ़ाया है? पूंजी रिटर्न सुधारने में मिलेगी मदद टैरिफ वृद्धि से 2025-26 अंत तक दूरसंचार उद्योग को पूंजी पर रिटर्न को 11 फीसदी तक सुधारने में मदद मिलेगी। 2023-24 में यह 7.5 फीसदी था। इसी तरह, कंपनियों का निवेश 28 फीसदी से घटकर अगले वित्त वर्ष में 19 फीसदी रह जाएगा, क्योंकि अधिकांश कंपनियों ने 5जी रोलआउट को पूरा कर लिया है। प्रीपेड ग्राहकों पर दिखेगा सर्वाधिक असर रिपोर्ट के अनुसार, वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाओं, सोशल मीडिया और गेमिंग एप के अधिक इस्तेमाल के कारण डाटा की अधिक खपत हो रही है। इससे ग्राहक अपने डाटा प्लान को अपग्रेड करा रहे हैं। एजेंसी ने कहा, एआरपीयू में वृद्धि धीरे-धीरे होगी। इसका पूरी तरह असर चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष में दिखेगा। इस बढ़ोतरी का सर्वाधिक असर प्रीपेड ग्राहकों पर दिखेगा, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए, जब सारे ग्राहक आगली बार रिचार्ज कराएंगे, तभी कंपनियों की बही खाता में यह कमाई दिखेगी।

आईपीएल के बाद एमएलसी 2024 में भी एमआई का निराशाजनक प्रदर्शन

प्लेऑफ से बाहर होने के कगार पर पहुंची

नई दिल्ली

इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। टीम 14 मैच में 10 हार के साथ अंक तालिका में 10 वें स्थान पर रही। आईपीएल के बाद एमआई को उम्मीद थी कि मेजर क्रिकेट लीग 2024 में उसकी युनिट एमआई न्यूयॉर्क अच्छा प्रदर्शन करेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले सीजन

विजेता रही एमआई न्यूयॉर्क एमएलसी 2024 के प्लेऑफ से बाहर होने के कगार पर पहुंच गई है। टीम 5 मैचों में 3 मैच नंगा चुकी है, आखिरी मैच में वाशिंगटन फ्रीडम से हार मिली। 16 जुलाई को वाशिंगटन फ्रीडम और एमआई न्यूयॉर्क के बीच खेले गए मैच में एमआई के कप्तान किरोन पोलार्ड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। वाशिंगटन ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान

पर 182 रन बनाए, ट्रेविस हेड ने 33 गेंदों पर 9 चौके और 2 छक्के लगाते हुए 54 और एंड्रयूज गॉस ने 48 गेंद पर 3 चौके और 4 छक्के लगाते हुए 59 की अस्वीकृतियों के कारण अतिरिक्त कर मांग की है। 773.44 करोड़ रुपये की मांग में उक्त किसी भी आकलन वर्ष का कोई रिफंड शामिल नहीं है।

88 रन पर ऑल आउट होकर 94 रन के बड़े अंतर से मैच हार गई। डेवाल्ड ब्रेविस, निकोलस पून और किरोन पोलार्ड बुरी तरह फ्लॉप रहे जिसका असर एमआई पर पड़ा और टीम कभी भी लक्ष्य का आस पास जाती नहीं दिखी। रोमारियो शेफर्ड 25 और ट्रेट बोल्ड 16 के अलावा कोई भी बल्लेबाज 2 अंकों में नहीं पहुंच सका। जसदीप सिंह ने 3 मार्को जानसेन, लॉकी फर्ग्युसन, और र्लेन मैक्सवेल ने 2-2 विकेट लिए। जसदीप सिंह प्लेयर ऑफ द मैच रहे, हार के बाद एमआई के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद लगभग समाप्त हो चुकी है।

जान्हवी कपूर की फिल्म उलझ का ट्रेलर रिलीज, देशद्रोही-नेपोटिज्म जैसे आरोपों से उलझती नजर आई अभिनेत्री

जान्हवी कपूर की किस्मत इस वक्त बुलंदियों पर चल रही है। उनके पास कई बड़े प्रोजेक्ट हैं और वह बेहतरीन फिल्मों में अपनी अदाकारी का जादू चलाने वाली हैं। हाल फिलहाल में अभिनेत्री की फिल्म उलझ रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में वह एक बेहतरीन किरदार में नजर आने वाली हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें क्या खास देखने को मिला है। जान्हवी कपूर जब से फिल्म इंडस्ट्री में आई हैं, तब से उनपर

नेपोटिज्म का आरोप लगाता रहा है। अब उनपर लगा यह आरोप स्क्रीन पर भी गूंजे वाला है। ट्रेलर की शुरुआत जान्हवी के सुहाना भाटिया के किरदार होती है, जो सेंट स्टीफंस कॉलेज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और अब देश की सबसे कम उम्र की डिप्टी

राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2 का पहला पोस्टर जारी, सरकटे का आतंक उड़ा देगा रातों की नींद

अभिनेत्री श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की 'हॉर-कॉमेडी' फिल्म स्त्री 2 दर्शकों का खूब मनोरंजन कराया था। अब दर्शकों को इसके सीक्वल का बेसब्री से इंतजार है। निर्माताओं ने हाल ही में फिल्म का टीजर जारी किया था, जिसने दर्शकों का उत्साह और बढ़ा दिया है। अमर कौशिक के निर्देशन में बनी स्त्री 2 के ट्रेलर का सभी को बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में आज मंगलवार को श्रद्धा कपूर ने फिल्म के ट्रेलर रिलीज की डेट का खुलासा किया है। श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर

फिल्म का एक पोस्टर साझा करते हुए ट्रेलर रिलीज की जानकारी दी है। अभिनेत्री ने बताया कि स्त्री 2 का ट्रेलर 18 जुलाई को जारी किया जाएगा। अपने एक्स अकाउंट पर श्रद्धा ने नया पोस्टर साझा करते हुए लिखा, एक बड़ी सूचना, ओ स्त्री आ रही है 2 दिन में स्त्री 2 का ट्रेलर 2 दिन में जारी होगा।

कमर के दर्द से परेशान हैं तो जरूर करें ये चार एक्सरसाइज

कमर का दर्द बहुत लोगों की आम समस्या है। अगर आप भी इस दर्द से परेशान हैं, तो कुछ एक्सरसाइज से आपको आराम मिल सकता है। रोजाना इन एक्सरसाइज को करने से आपकी कमर की मांसपेशियां मजबूत होंगी और दर्द कम होगा। यह एक्सरसाइज करना आसान है और आप इन्हें घर पर ही कर सकते हैं। आइए, जानते हैं चार ऐसी एक्सरसाइज के बारे में जो कमर दर्द से राहत दिलाने में मददगार हैं। घुटने से छाती तक खींचना- इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं, अब एक पैर को घुटने से मोड़ें और उसे अपने छाती की ओर खींचें। इस स्थिति में 20 सेकंड तक रहें और फिर आराम से वापस आ जाएं। इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर के साथ दोहराएं। यह एक्सरसाइज आपकी कमर की मांसपेशियों को खींचती है और दर्द को कम करती है। कैट-काऊ स्ट्रेच- यह योगासन आपकी कमर और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। इसे करने के लिए, सबसे पहले चौकोर स्थिति में बैठ जाएं, अब अपनी पीठ को धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठाएं (कैट पोज) और फिर नीचे की ओर झुकाएं (काऊ पोज)। यह प्रक्रिया धीरे-धीरे

करें और 10 बार दोहराएं। कोबरा स्ट्रेच- इस एक्सरसाइज को करने के लिए पेट के बल लेट जाएं और अपने हाथों को कंधों के पास रखें। अब धीरे-धीरे अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को उठाएं, ध्यान रखें कि आपकी कोहनियां मुड़ी हुई हों और गर्दन को ज्यादा पीछे न खींचें। इस स्थिति में 15-20 सेकंड तक रहें। फिर धीरे-धीरे वापस नीचे आ जाएं और थोड़ी देर आराम करें। इस एक्सरसाइज को 10-15 बार दोहराएं। यह एक्सरसाइज आपकी कमर के निचले हिस्से को मजबूत करती है और दर्द में आराम देता है। ब्रिज पोज- पीठ के बल लेट जाएं और अपने घुटनों को मोड़ें, अपने पैरों को जमीन पर सपाट रखें। अब धीरे-धीरे अपने कूल्हों को ऊपर उठाएं, ताकि आपके शरीर का वजन आपके कंधों और पैरों पर आ जाए, इस स्थिति में 15-20 सेकंड तक रहें। फिर धीरे-धीरे वापस नीचे आ जाएं और थोड़ी देर आराम करें। इस एक्सरसाइज को 10-15 बार दोहराएं। यह एक्सरसाइज आपकी कमर के निचले हिस्से को मजबूत करती है और दर्द में राहत देती है, इसे रोजाना करने से आपकी कमर की मांसपेशियां भी मजबूत होंगी।

शब्द सामर्थ्य- 121

बाएं से दाएं उपस्थित होना, ठहरना 18. जिसे लात खाने की आदत हो गई हो काम, शिक्षा 10. किस्मत, नसीब, भाग्यवान 12. एक पक्षी जो पुराने समय में संदेश वाहक का काम करता था 13. बाल, बच्चा, लड़का, छोकरा 17. वायु संबंधी, हवा में रहने, उड़ने या होने वाला, बिल्कुल काल्पनिक और निर्मूल 19. नाव, कश्ती 20. वर्ष, बरस, एक इमारती वृक्ष।

उपर से नीचे 1. विशेष, विशिष्ट 2. सुगंध, खुशबू 3. आदमी, मनुष्य, मानव क्लर्क, सम्मानित व्यक्ति 4. 5. अपेक्षाकृत, अपेक्षया 6. कष्ट, दर्द, दिक्कत 7. पठन, पढ़ने का

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 120 का हल

पं	क्ति	स्वा	द	स	ब	ब
जा	सु	हा	ना	ली	द	
ब	हु	धा	द	ल	ना	ल
भं	व	र	क	मा	न	ग
गी	त	म	ज	बू	र	ट
न	म	स्का	र			र
र्या		बी		ना	का	
सं	वि	दा	ब	स	च	ल

सू-दोक्- 121

9	1	6	2	7	
3					
6				9	
7		5	1	3	
8			9	6	
4				7	
3			2	9	
6	7	3			4
			1	7	8

नियम 1. कुल 81 वर्ग हैं, जिसमें 9 वर्गों का एक खंड बनाता है। 2. हर खाली वर्ग में 1 से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते हैं। 3. बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे के प्रत्येक कालम, कतार और खंड में 1 से 9 अंकों में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते हैं।

सू-दोक् क्र. 120 का हल

2	6	3	9	8	7	1	5	4
8	5	1	3	2	4	6	7	9
9	4	7	1	5	6	8	2	3
3	9	8	6	7	1	5	4	2
6	1	2	5	4	3	9	8	7
5	7	4	8	9	2	3	1	6
1	2	6	7	3	5	4	9	8
4	8	5	2	6	9	7	3	1
7	3	9	4	1	8	2	6	5

आज का राशिफल

मेघ- आज आपका दिन खुशहाल बीतेगा। शिक्षा से रिलेटेड आपकी कोई मनोकामना पूरी होगी। आपको परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे, जिससे अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन पाएंगे। व्यापार में आपको नये सुनहरे अवसर मिलने की संभावना है। बुध- आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज का दिन व्यापार के लिए फायदेमंद रहेगा, रोज की अपेक्षा अधिक लाभ होगा। निवेश से जुड़े कुछ बेहतर मौके आपको मिल सकते हैं, बेहतर होगा किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले लें। मिथुन- आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। लोग आपका मन नये कार्यों को सोखने में लगेगा। आज आपके बिजनेस में दो गुना वृद्धि होने के योग बने हुए हैं। आज अपने कार्यों को पूरी सावधानी से करें, साथ ही दूसरों की हर सैन्य मदद करें। कर्क- आज का दिन मिलना-जुलना रहने वाला है। आप अपनी सोच को सकारात्मक रहें। आज जॉब स्विच करने का मन बना सकते हैं, इसके लिए आपको अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। महिलाएं आज घर के कार्यों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगी। सिंह- आज का दिन अच्छा रहेगा। आज जिससे भी मिलेंगे वह व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा। बिजनेस में परिवार से सहाय्य मिलेगी। आज किसी से बात करते समय अपनी वाणी पर संयम बनाए रहें। कन्या- आज आपका दिन खुशनुमा रहने वाला है। आज आपका मन किसी बात को लेकर प्रसन्न रहेगा। आज आप छोटी-छोटी चीजों में खुशियां ढूँढने में सफल होंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी मजबूत होगी। मूल- आज आपके मन में नए-नए विचार आएंगे। आज आपका मन नये कार्यों को सोखने के लिए उत्साहित रहेगा। आज आप अपने बनाए प्लान में थोड़ा बहुत बदलाव करेंगे, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। बिजनेस में कुछ नया करने की इच्छा होगी। बुध- आज का दिन आपको सफलता दिलाने वाला रहेगा। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए दिन अच्छा रहेगा। बड़े-बुजुर्गों की सलाह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अचानक धन लाभ का योग बन रहा है। आज आपका झुकाव समाजसेवा की तरफ रहेगा। धनु- आज आपका रुझान अध्यात्म की तरफ ज्यादा रहेगा। आप घर पर किसी धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करेंगे। राजनीतिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज लोगों के बीच आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। शक्र- आज कार्यस्थल पर अधिकारी आपके कार्यों की तारीफ करेंगे। आपकी सैलरी में बढ़ोतरी भी हो सकती है, जिससे आज आपका दिन अच्छा रहेगा। छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है, थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। कुंभ- आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। आज सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देंगे। कार्यक्षेत्र में उम्मीद के अनुसार कामयाबी हासिल होगी। आज आपकी बात किसी बचपन के दोस्त से हो सकती है। मीन- आज का दिन आपके लिए उत्साहपूर्ण रहेगा। आज जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। संतान के करियर को लेकर आज आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेंगे।